



कोल इंडिया लिमिटेड
सतर्कता विभाग

"सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020"

लघु फिल्म प्रतियोगिता

सीआईएल और इसकी सभी अनुषंगियों के कर्मचारियों के लिए

फिल्म का विषय: "सतर्क भारत-समृद्ध भारत"

उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार:

प्रथम पुरस्कार	₹.10,000.00	एक
द्वितीय पुरस्कार	₹.7000.00	एक
तीसरा पुरस्कार	₹.5000.00	एक
सांत्वना	₹.3000.00	तीन
सहभागिता प्रमाणपत्र		सभी प्रतिभागियों के लिए

जमा करने की अंतिम तिथि	31.10.2020
फिल्म भेजने का पता	shortfilmvaw@gmail.com

प्रतियोगिता में सहभागिता हेतु नियम एवं शर्तें:

1. यह प्रतियोगिता सीआईएल तथा इसकी सभी अनुषंगी कंपनियों के कार्मिकों के लिए है। प्रत्येक कार्मिक से केवल एक फिल्म प्रविष्टि मान्य होगी।
2. यह एक लघु फिल्म प्रतियोगिता है अतः केवल लघु फिल्म ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। संबंधित विषय पर प्रविष्टियों में डिजिटल एनीमेशन फिल्में भी हो सकती हैं। फिल्म में कहीं

भी प्रतिभागी का नाम तथा पहचान नहीं होनी चाहिए। उन्हें एक विशिष्ट फॉर्म भरना होगा जिसे फिल्म के साथ एक अलग फाइल द्वारा भेजना होगा।

3. समयावधि: फिल्म की अवधि अधिकतम 3 (तीन) मिनट (180 सेकंड) 20 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समय सीमा से अधिक की फिल्मों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। न्यूनतम अवधि 30 सेकंड होना चाहिए।
4. लघु फिल्में अंग्रेजी / हिंदी (यदि आवश्यक हो तो उपशीर्षक जोड़ा जा सकता है) में होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में इंटरनेट / सोशल मीडिया से कॉपी किए गए किसी अन्य आयोजनों पर पूर्व प्रस्तुत फिल्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा पाया जाता है, तो प्रतियोगिता / पुरस्कार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कार्य स्वरूप मूल (ओरिजनल) तथा प्रतिभागी द्वारा स्वयं का कार्य होना चाहिए। हालाँकि, प्रतिभागियों को पुस्तकों, पत्रिकाओं, इंटरनेट से सुझाव लेने की अनुमति है तथा वीडियो के अंत में प्रतिभागियों द्वारा इसका संदर्भ दिया जाना चाहिए।
5. प्रारूप: फिल्मों को MPEG4 या AVI प्रारूप में शूट किया जा सकता है।
6. प्रतिबंधात्मक आवश्यकताएं- फिल्म बनाते समय निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना चाहिए:

क. ग्रंथ, क्षेत्र विशेष, रंगमंच व्यक्तित्व के कार्य तथा किसी भी राजनीतिक क्षेत्र, टीवी व्यक्तित्व आदि के चरित्र पर किसी भी लिंग, धर्म, जाति और समुदाय की भावना पर आघात करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

ख. अश्लील शब्द (अपमानजनक भाषा), मानवीय गरिमा को गिराने वाले शब्द तथा वाक्यांश, जबरन अभिव्यक्ति तथा दुर्वचन, एम्बेडेड विज्ञापन, धूम्रपान का प्रदर्शन, आग्नेयास्त्र और वाक् अस्त्र, विस्फोटक, विस्फोटक उपकरण बनाने की प्रक्रिया, शराब और ड्रग्स का उपयोग, अन्य मनोदैहिक पदार्थ।

ग. वास्तविक पता और टेलीफोन नंबर दिखलाना, धार्मिक क्रियाकलापों की जानकारी, धार्मिक प्रतीकों सहित, वस्तुओं के मौजूदा ब्रांडों के नाम और संदर्भ, ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, व्यक्तिगत और कानूनी संस्थाएं।

घ. फासीवादी विरोधाभास की छवियाँ (स्वास्तिक), हिंसा के दृश्य, किसी भी तरह का भेदभाव, बर्बरता, रक्त, लोगों और जानवरों की शारीरिक पीड़ा को दर्शाना, यौन स्पष्ट दृश्य, नग्न लोगों की छवियाँ और अन्य जानकारी, किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर अपमानजनक टिप्पणी, साथ ही ऐसी जानकारी जो स्वास्थ्य और (या) बाल विकास को नुकसान पहुंचा सकती है तथा अतिवादी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हो सकती है।

- ड. कॉपीराइट कानून द्वारा अनुमत सीमा को छोड़कर अन्य लोगों के विषय, वीडियो और ऑडियो सामग्री (साहित्यिक चोरी) का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- च. इन आवश्यकताओं के अनुपालन न करने की स्थिति में, कृति को किसी भी स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- छ. प्रतियोगिता की कृतियों को वापस नहीं किया जाएगा और न ही पुनर्विचार किया जाएगा। सतर्कता प्रभाग को एक बार प्रस्तुत करने के बाद, इसे किसी भी परिवर्तन के लिए वापस नहीं लिया जा सकता है।
7. जैसा कि नियम स्वतः स्पष्ट हैं, मेल या फोन कॉल द्वारा किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया जाएगा।
 8. प्रतिस्पर्धा / प्रतियोगिता की प्रविष्टियों की जांच और चयन सीवीओ, सीआईएल द्वारा चयनित जजों के पैनल द्वारा किया जाएगा।
 9. विजेताओं को प्रदत्त फोन नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
 10. सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2020 के समापन समारोह के दौरान पुरस्कार दिए जाएंगे।
 11. सतर्कता विभाग, सीआईएल में फिल्म जमा होने के बाद यह सतर्कता विभाग, सीआईएल की संपत्ति बन जाएगी तथा इसका प्रयोग आंतरिक प्रकाशन, प्रदर्शनी या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
 12. कर्मचारी विवरण प्रारूप (अनुलग्नक- क) में प्रदत्त को डाउनलोड, भरकर, स्कैन करके लघु फिल्म के साथ प्रदत्त मेल आईडी पर भेजा जा सकता है।
 13. सीवीओ, सीआईएल का निर्णय सभी मामलों में अंतिम होगा और किसी भी प्रतिभागी के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(पी मधूसुदन राव)

महा प्रबंधक (सतर्कता)

प्रतिभागी कर्मचारी का विवरण

प्रतिभागी का विवरण (वीडियो में किसी भी प्रकार से पहचान प्रकट किए बिना, अलग फ़ाइल में भेजा जाय) यदि फिल्म में व्यक्तिगत विवरण प्रदान किया जाता है तो वह अयोग्य ठहराया जाएगा।

1. फिल्म का नाम:
2. कर्मचारी का नाम:
3. कर्मचारी की पीआईएस / ईआईएस संख्या:
4. अनुषंगी का नाम:
5. कर्मचारी का पदनाम:
6. पदस्थापना का स्थान:
7. आवासीय पता:
8. संपर्क विवरण:
9. संपर्क ईमेल आईडी:

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि संलग्न फिल्म मेरी मूल रचना है तथा यह प्रमाणित करता हूं कि उक्त रचना मेरे द्वारा की गई है एवं मैंने किसी भी स्रोत से पूर्व प्रकाशित रचना की नकल या प्रयोग नहीं किया है। मैं इस फिल्म की विषय-वस्तु के लिए स्वयं उत्तरदायी हूं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने इससे पूर्व इस फिल्म को किसी अन्य प्रतियोगिता में प्रस्तुत नहीं किया है।

दिनांक: प्रतिभागी का हस्ताक्षर

स्थान: प्रतिभागी का नाम

